

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

वा. 78/25
BNSS 1683

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तिथि सहित

आदेश

8/8/25 उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा का
अध्ययन करने, उभय पक्ष द्वारा दाखिल
राजस्व कागजातों के अध्ययन करने
से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि
उभय पक्ष के मध्य के अ-विवाद में
दलाल-कठजे का तत्व अंतर्निहित है
तथा वर्तमान में भी उक्त विवाद
का यथोचित समाधान नहीं होने पर
लोक परिशांति भंग होने की आशंका
विद्यमान है। अतः वाद को BNSS
की धारा 164 के तहत परिणत किया
जाता है। उभय पक्ष को उक्त आशय का
नोटिस जारी करें तथा वाद को
सुनवाई हेतु दिनांक 4/11/2025 को
सुनीषद करें।

लैखिक एवं संशोधित

8/8/25
SDM Bagodar Saryo.

8/8/25
SDM.